



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 01.11.2022

1-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टे के अन्दर मोबाइल फोन छिनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से लूटा गया एप्पल मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

दिनांक 01.11.2022 को थाना थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टे के अन्दर मोबाइल छिनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना क्षेत्र के ईएसआईसी कट सेक्टर-24 से 02 अभियुक्त 1.अंकित पुत्र दिनेश निवासी रोहित चौहान का मकान, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, नोएडा मूल पता ग्राम महादनपुर, थाना बलिया, जिला बलिया, 2.ओम त्रिपाठी पुत्र महेन्द्र निवासी रोहित चौहान का मकान, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, नोएडा मूल पता ग्राम तिलयानी तिवारी का पुरवा, थाना सहानीपुर, जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है व एक बाल अपचारी को अभिरक्षा लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया एक मोबाइल फोन एप्पल व घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी जुपिटर नं0 यूपी 16 सी क्यू 9616 बरामद हुए है।

वादी अजय चौधरी पुत्र मनोज चौधरी निवासी राजवीर कॉलोनी, दिल्ली से 03 अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा मोबाइल छिनने की घटना के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24 नोएडा पर मु0अ0सं0 435/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.अंकित पुत्र दिनेश निवासी रोहित चौहान का मकान, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, नोएडा मूल पता ग्राम महादनपुर, थाना बलिया, जिला बलिया।
- 2.ओम त्रिपाठी पुत्र महेन्द्र निवासी रोहित चौहान का मकान, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, नोएडा मूल पता ग्राम तिलयानी तिवारी का पुरवा, थाना सहानीपुर, जिला प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 435/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

- 1.एक मोबाइल फोन एप्पल
- 2.घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी जुपिटर नं0 यूपी 16 सी क्यू 9616



2-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मोरना डिपो से ग्रेटर नोएडा डिपो की बस ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर रोडवेज बस बरामद।

दिनांक 01.11.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मोरना डिपो से ग्रेटर नोएडा डिपो की बस ले जाने वाला अभियुक्त मुकेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा निवासी ग्राम धनोरा, थाना ककोड, जिला बुलंदशहर वर्तमान पता ग्राम बरौला, मिंटू भाटी का मकान, सेक्टर-49, थाना सेक्टर-49, नोएडा को ग्राम बरौला से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर मोरना बस स्टैंड सीएनजी पंप सेक्टर-35 से चोरी की गई ग्रेटर नोएडा डिपो की बस रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 32 सीजेड 3080 बरामद की गई है।

अभियुक्त का विवरण:

मुकेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा निवासी ग्राम धनोरा, थाना ककोड, जिला बुलंदशहर वर्तमान पता ग्राम बरौला, मिंटू भाटी का मकान, सेक्टर-49, थाना सेक्टर-49, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 432/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

चोरी की गई ग्रेटर नोएडा डिपो की बस रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 32 सीजेड 3080



थाना कासना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आबकारी अधिनियम से संबंधित पिछले कई वर्षों से थाना कासना पर लंबित पड़े माल करीब 24,652 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 70 लाख 95 हजार रूपये) को नष्ट किया गया।

दिनांक 31/10/2022 को थाना कासना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफटीसी-02 गौतमबुद्धनगर महोदय के आदेशानुसार आबकारी अधिनियम से संबंधित पिछले कई वर्षों से थाना कासना पर लंबित पड़े माल करीब 24,652 लीटर

अवैध शराब (कीमत करीब 70 लाख 95 हजार रूपये) सम्बन्धित धारा 60/60 आबकारी अधिनियम वर्ष 2018 के 40 माल, वर्ष 2019 के 19 माल, वर्ष 2020 के 29 माल, वर्ष 2021 के 43 माल, वर्ष 2022 के 10 माल कुल 141 माल से सम्बन्धित सभी प्रकार के शराब का माल को मालखाने से निकलवाकर नियमानुसार जे0सी0बी0 से गड्ढा खुदवाकर तथा माल पर रोड रोलर चलवाकर व माल गड्ढे में दबवाकर पूर्णतया नष्ट कराया गया।

इस मौके पर एसीपी-3 ग्रेटर नोएडा व प्रभारी निरीक्षक कासना मय पुलिस बल उपस्थित रहे।